

Fax : 08255-239666
Email : aaocpcrivtl@gmail.com

भा.कृ.अ.प. - केन्द्रीय रोपण फ़सल अनुसंधान संस्थान
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)
प्रदेशिक केंद्र, विट्टल-574243, कर्नाटक, भारत

Phone : Head.(08255)265289
(Res):(08255)239244
PABX: (08255)239238
239222



ICAR-CENTRAL PLANTATION CROPS RESEARCH INSTITUTE
REGIONAL STATION, VITTAL - 574 243, KARNATAKA, INDIA



F No.300-154/2016-Works

Dated: 20-05-2017

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from the financially sound, experienced, registered & licensed (PWD/CPWD/MES with valid renewals) Civil Contractors (with PAN card) and authorized agencies for taking up the following work at this Station.

Sl. No.	Name of work	Amount of EMD (Rs.)	Last date for receipt of tender	Time for completion of work
01.	Digging bore well 165mm diam. Bore well drilling by surface drilling fast rig - 1 No.	5,000/-	Up to 3.00 PM on 12-06-2017	2 weeks
02	Providing and fixing 6 1/2" G.I. 'B' class casing pipes into hard rock Miscellaneous charges			
03	Miscellaneous charges			

The rate should be quoted per ft. The Contractor / Agency should be able to dig up to approximate the depth of 450 ft. Pump should freely move inside the bore well. In the event of bore well failure, PVC pipe has to be removed.

EMD is to be deposited along with tender by demand draft in favour of ICAR Unit, CPCRI, RS, Vittal payable at Syndicate Bank, Vittal. Tenders without EMD and un-signed tenders will not be considered. Tender forms are available at Stores Section which can be had between 9.30 and 5.00 PM on all working days or may be downloaded from Institute website www.cpcri.gov.in. The tender forms duly filled in, signed, and completed in all respects including terms & conditions along with EMD and copy of the valid license should be sent to this office on or before the scheduled time as mentioned above superscribing the envelope as tender for "Digging Borewell at CPCRI Vittal" due on **12-06-2017 (3.00 PM)** The Tender will be opened on **12.06.2017, 3.30 PM**

The Head of this Station reserves the right to accept or reject any quotation/tender without assigning any reason.


Asst. Administrative Officer
for HEAD

Copy to :

1. Dr.K.S.Ananda, Principal Investigator, RF Scheme (indentor)
2. Asst. Fin. & Accts. Officer, CPCRI, RS Vittal.
3. ACTO, (Farm) CPCRI, RS, Vittal for information /necessary action.
4. CPCRI, Website

TERMS AND CONDITIONS/शर्तें एवं निबंधन

१. इस स्टेशन के प्रमुख/वैज्ञानिक प्रभारी के पूर्ण प्रसन्नता तथा विनिर्देश/योजना के अनुसार कार्य का निष्पादन किया जाना चाहिए। कार्य पर प्रमुख/वैज्ञानिक प्रभारी का निर्णय अंतिम माना जाएगा। और किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थितियों को छोड़ भी दावा का स्वीकार नहीं किया जाएगा।
1. The work should be executed strictly as per the specification /plan to the best satisfaction of the SIC/HO of this station of the SIC/HO on the work is final and no claims on any nature shall be entertained at any stage.
२. कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों का अनुमोदन उपयोग के पहले ही जरूर प्राप्ति किया जाना है। इस संबंध में कोई अंतर हो तो बिना कारण बताए कार्य निष्पादन सामग्री अस्वीकार की जाएगी।
2. All materials to be used for the work should be got approved before use. Any deviation in the regard entails work executed without assigning any reason thereof.
३. वैज्ञानिक प्रभारी/प्रमुख द्वारा प्राधिकृत एक अधिकारी द्वारा कार्य का निरीक्षण किया जाएगा या मानक मापन स्तर के रूप में मापन किया जाएगा। बिना कारण बताए वैज्ञानिक प्रभारी/प्रमुख पर संविदा पूर्ण रूप से या अंशिक रूप से तिरस्कार करने का अधिकार है। उनका निर्णय अंतिम होगा।
3. The work will be supervised in terms of standard measuring side by an officer authorized by the SIC/HO. The SIC/HO reserves the right to reject the entire tender or part thereof without assigning any reason thereof and his decision in the regard is final.
४. संविदा में दिया गए विभिन्न मदों के लिए उल्लिखित परिमाण परिवर्तन के अधीन है अधिक य कम होगा। मूलतः प्रतियोगी दर पर नियत करने के लिए संविदाएं आमंत्रित किया जाती हैं।
4. Quantities mentioned for the various items in the tender are subject to variation either plus or minus. Tenders are called basically to fix competitive rates.
५. कार्य जल्दी ही प्रारंभ किया जाना चाहिए और कार्य आदेश में उल्लिखित दिनांक के पहले ही सन्तोषजनक रूप से पूरा किया जाना चाहिए।
5. The work should be commenced immediately and completed satisfactorily before the date mentioned in the work order.
६. काम सन्तोषजनक रूप से पूरा करने के बाद ही बिल का भुगतान किया जाएगा। नियम एवं विनियमों के अधीन लागू दर पर बिल से आयकर/कार्यकर की कटौती की जाएगी।
6. Payment will be made only after satisfactory completion of the work. Income tax/work tax at the applicable rate under rules and regulation will be deducted from the bill.
७. मौखिक रूप से कोई निर्देश दिया गया तो वह अतिरिक्त खर्च के बिना उचित रूप से कार्य निष्पादन के लिए दिया गया निर्देश समझ जायेगा।
7. Any instruction given verbally shall be deemed as instructions for the proper execution of the work not involving extra charges.
८. संस्थान द्वारा काम से संबंधित कोई औजार या अन्य सुविधाएं प्रदान नहीं किये जाएंगे और कार्य निष्पादन के समय कोई हानि, धातिल, धुगटन आ जाए तो उनके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
8. No implements or other facilities, relating to the work will be provided by the Institute and also holds no responsibility on the loss, injury, and accident etc., caused during the execution of the work.
९. निर्धारित समय के अंदर कोई उचित कारण के लिए काम अधूरा किया जाए या अंशिक रूप से, यह करने योग्य है और किसी भी परिस्थिति के अधीन ऐसे काम के लिए कोई दावा का प्रोत्साहन नहीं किया जाएगा इसके लिए किया गया जमा जम्द जाएगा।
9. Non-completion of the work or part thereof for any valid reasons within the period prescribed is liable for cancellation and no claims for such works will be entertained under any circumstances and deposits made thereof will be forfeited.

1. अपने अधीन काम करने वाले श्रमिकों के लिए और कैंपस के अंदर अनुशासन बनाए रखने के लिए, अपने आप या एक व्यक्ति को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करेगा।

The contractor shall himself or appoint one person as site supervisor/to control the workers working under him and shall maintain discipline inside the campus.

कार्यालय काम में कम रुकावट के साथ जहां तक साध्य हो कमरे का पूरा धूल, रंग, दागा उसी दिन साफ करना चाहिए। 11. As far as possible the rooms should be cleaned of all dust paint stains, the same day with minimum obstruction of the office work.

12. संस्थान द्वारा कोई आवास प्रदान नहीं किया जाएगा। टेकेदार ने अपने औजार/उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए अपने ओर से व्यवस्था की जानी चाहिए।

12. The Institute shall not provide any accommodation. The contractor shall make his own arrangements for the custody of his implements/tools.

13. कोई त्रुटिपूर्ण कार्य-कौशल पाया जाए तो उसके ही खर्च में ठीक किया जाएगा जिसमें उपेक्षा आदी के कारण बिगड़े सामग्री/कचड़ा रंग सम्मिलित हो।

13. Any defective workmanship found shall be rectified at his cost which may include the materials spoil/wasted due to negligence etc.

14. प्रमुख यह स्थल पर उसके प्रतिनिधि के लिखित अनुरोध पर टेकेदार द्वारा नियुक्त किया जाए कोई भी व्यक्ति हो कार्य से जल्दी ही बर्खास्त करेंगे जो प्रमुख के राय में अक्षम है या कदाचारी हो। ऐसे व्यक्ति को प्रमुख की लिखित अनुमति के बिना कार्य पर पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा। कोई त्रुटिपूर्ण कार्य-कौशल में उसके ही खर्च पर ठीक किया जाना है।

14. The contractor shall, on the written request of the head or his representative on the site, immediately dismiss from the work any person employed by him thereon, who may in the opinion of the Head be incompetent or mis-conduct himself and such persons shall not again be employed on the works without the written permission of the Head. Any defective workmanship found shall be rectified at his cost.

15. कार्य निष्पादन की अवधि पर अगर कोई क्षति/घायल हुआ तो संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।

15. The Institute will not be responsible for any damage/injury caused or occurred during the execution of work.

16. कार्य की पूर्ति के लिए किसी अपरिहार्य वास्तविक कारणों से अनुबंधित अवधि के बाद अगर समय की कोई अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान की दी जाती है तो जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिए गए कार्य की कुल मूल्य की 0.25 प्रतिशत से अधिकतम के अधीन 2.5% तक प्रति महीने की दर में दंड अधिरोपित किया जाएगा।

16. In case any extension of time is granted beyond the stipulated period for completion of the work due to any unavoidable genuine circumstances as may be decided by the Competent Authority penalty clause will be imposed @ 0.25% per month maximum to 2.5% of the total cost of the work, if work not completed within schedule time or mutually extended period.

17. टेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया चाहिए कि अनुबंधित समय के अंदर ही कार्य की पूर्ति के लिए दैनिक वेतन पर आवश्यक संख्या में व्यक्तियों को रोजगारी दी है। 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को काम में नहीं नियुक्त किया जाए।

17. The Contractor should ensure that required numbers of persons are employed on daily basis to complete the work within the stipulated time. Children below 15 years should not be engaged for any work.

18. उपर्युक्त काम के लिए अगर किसी 20 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त जाता है तो संविद श्रम अधिनियम (विनियम एवं उत्पादन अधिनियम 1947) के अधीन पंजीकरण अनिवार्य है। अगर उपर्युक्त काम के लिए 20 से कम श्रमिकों नियुक्त किया जाता है तो इस आशय क बचनबंद देन होगा।

18. If you are engaging 20^{or} more workmen in any day, for the above work, registration under Contract Labour (Regulation and Abolition Act 1970) Act is mandatory. If engaging less than 20 workmen for the above work, an undertaking to this effect is to be furnished.

१९. यदि आवश्यक है तो भुगतान के आधार पर बिजली/पानी की सुविधा के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

19. Prior permission may be obtained for electricity/water facility, if required, subject to payment.

२०. इस आदेश की प्राप्ति के दिनांक से ३० दिन के बाद कार्य पालन के लिए दिए गए ६० दिनों की अवधि को गणन की जाएगी। 20) The period of 30 days allowed for carrying out the work will be reckoned after 10 days from the date of receipt of this order.

२१. कार्य प्रारंभ होने के पहले निष्पदन के रूप में बैंक से संविदा मूल्य के % रुपये डीडी/एफडी रसीद या बैंक गारंटी स्वीकार्य प्रपत्र में अदा करें। निष्पदन सुरक्षा देने पर तुरंत ही संविदा के साथ जमा किया गए रुपये की बोली सुरक्ष वापस की जाएगी।

21. You may remit Performance Security Rs. being the % of contract value by DD, FD Receipt or Bank Guarantee from the Bank, in an acceptable form before commencement of work. The Bid Security of Rs. deposited along with the tender will be refunded immediately on furnishing the Performance Security.

२२. चुना गया टेकेदार अगर कार्य निष्पदन में पराजित हो गया तो सुरक्ष जमा/बयाना जमा का जन्त किया जाएगा।

22. In case the selected contractor fails to execute the work satisfactorily, the security deposit/EMD is liable to be forfeited.

२३. छोटा छोटा कार्य संताषजनक रूप से पूरा करने के दिनांक से अगर कोई त्रुटि उसके पाथि गयी है तो टेकेदार को त्रुटिया टीक करने के लिए प्रदान किया गए महीने की अवधी मे सभी त्रुटिया पूरा करनी है, उसके बाद ही सुरक्ष जमा/बयाना जमा निर्मुक्त किया जाएगा।

23. The Security Deposit/EMD will be released only after the completion of the defects liability period of 6 months/years provided that the contractor has attended to and rectified all the defects, if any, shown to him from the date of satisfactory completion of the petty work.

२४. कोई अंशिक भुगतान नहीं / No part payment

मै शर्त एवं निबंधनों के अनुसार कार्य करने और कार्य निष्पदन के लिए सहमत हू।

I agree to undertake and execute the works as per the terms and conditions:

..... रुपये का डिमांड ड्राफ्ट सं. दिनांक का सुरक्ष जमा अदा किया गया।

Security deposit remitted Rs.

D.D.No.

DI.

टेकेदार क हस्थाक्षर एवं पता, दूरभाषा संख्या

Signature of the Contractor and address, Phone/PAN No.